



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 05 पटना, बुधवार, 29 माघ, 1930(श0)
18 फरवरी, 2009(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-4—बिहार अधिनियम ---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	2-5 भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1 ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9—विज्ञापन ---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन, सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं, और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 13-14
	पूरक ---
	पूरक-क ---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

2 फरवरी 2009

सं.-भ./स्था.-1-पदा.-37/06-426—श्री मनोरंजन प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना भवन प्रमंडल संख्या-2 के अस्वस्थता के कारण स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या-2 के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रसाद के जिम्मे इसके अतिरिक्त अन्य कार्य यथावत रहेगा।

2. श्री अरविन्द कुमार कण्ठ, कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल संख्या-2 को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना भवन प्रमंडल संख्या-2 के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

एच. एन. झा,

सरकार के अपर सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

16 दिसम्बर 2008

संख्या-1स्था०-132/08-2170/वि०स०—बिहार राज्य कर्मचारी सेवा-शर्तें (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003 से संबंधित वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-3एम.2-5-वे०पु०-28/99-4685 वि०(2), दिनांक-25.06.2003 जो सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-718, दिनांक-21.05.2004 द्वारा सभा सचिवालय में लागू किया गया है, की कॉडिका-07 के अधीन ए०सी०पी० स्कीम के तहत पुनर्गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-11.08.2008 एवं दिनांक-10.11.2008 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में वित्त विभाग की सहमति से श्री कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा, मार्शल, बिहार विधान सभा को दिनांक-09.08.1999 से वेतनमान 10,000-15,200/- रुपये में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार वेतन का नियतन मौलिक नियमावली के नियम-22 (i)ए (ii) के तहत किया जाएगा। यह वेतनमान आर्थिक लाभ तक ही सीमित रहेगा। उच्चतर वेतनमान के पदनाम/कर्तव्य और दायित्व प्राप्त नहीं होंगे।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मों को प्राप्त ए०सी०पी० योजना का लाभ रद्द या संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-2191, दिनांक-11.12.2006 को विखंडित किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

परमानन्द झा,

उप सचिव।

22 दिसम्बर 2008

सं०1 स्था०-187/08-2221वि०स०—वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3ए-7-महा०-01/2005-1500 वि०(2), दिनांक 24.03.2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-499, दिनांक-12.04.2005 के अनुसरण में श्री परमानन्द प्रसाद सिंह, उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय की आयु 60 वर्ष पूरी होने के फलस्वरूप इन्हें दिनांक-31.12.2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
राधेश्याम झा,
अवर सचिव।

23 दिसम्बर 2008

सं०2 स्था०-102/08-2232वि०स०—श्री लाला सच्चिदानन्द सिन्हा, प्रतिवेदक बिहार विधान सभा सचिवालय, को महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक जी०ई०-12-बी०एल०ए०-XVIII-17-760, दिनांक-26.06.2008 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के तहत दिनांक 14.01.2008 से 31.01.2008 तक तथा दिनांक 04.02.2008 से 25.03.2008 तक रूपांतरित अवकाश, पत्रांक जी०ई०-12-बी०एल०ए०-XVIII-17-775, दिनांक 27.06.2008 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम 230 एवं 248(क) के तहत दिनांक 26.03.2008 से 30.04.2008 तक उपार्जित अवकाश, पत्रांक जी०ई०-12-XVIII-बी०एल०ए०-17-2036, दिनांक 07.11.2008 के आलोक में दिनांक 01.05.2008 से 30.05.2008 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त संहिता के नियम-159 के तहत दिनांक 02.02.2008 एवं 03.02.2008 एवं दिनांक 31.05.08 एवं 01.06.08 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है। साथ ही दिनांक 21.01.08 से 31.01.08 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
रामेश्वर प्रसाद चौधरी
अवर सचिव,

23 दिसम्बर 2008

सं०-2 स्था०-231/08-2240वि०स०—सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-630, दिनांक-16.05.2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3/एम 2-5-1/99, खण्ड 1829 वि० (2), दिनांक-07.04.2005 तथा महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना के ज्ञापक-जी०ई०: 12-बी०६ ए-ए-XVII-12-2295, दिनांक-05.12.2008 के अनुसरण में श्री वशिष्ठ देव तिवारी, सेवानिवृत्त उप सचिव (निजी सहायक संवर्ग) बिहार विधान सभा, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.10.2008 तक उनके कोष में संग्रहित 300 (तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य अवकाश वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य मँहगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
रामेश्वर प्रसाद चौधरी,
अवर सचिव।

30 दिसम्बर 2008

सं०1 स्था०-115/08-2257वि०स०—बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-947, दिनांक-29.05.2008 द्वारा श्री गया प्रसाद यादव, उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय की दिनांक-31.05.2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त उप सचिव के पद पर वरिष्ठतम अवर सचिव श्री बैजू प्रसाद सिंह को वेतनमान-12,000-375-16,500/- रुपये में अनुमान्य विशेष वेतन एवं अन्य भत्तों के साथ दिनांक-31.12.2008 के पश्चात् पदभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नति दी जाती है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
परमानन्द झा,
उप सचिव।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

22 दिसम्बर 2008

सं० 7/एल० 6-1015/2008-3464—श्री शम्भू शरण सिंह, प्राक्कलन पदाधिकारी (सहायक अभियंता), जल जथ प्रमंडल, जहानाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 228, एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 14.05.07 से 03.07.07 तक कुल 51 (एकावन) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यदि श्री सिंह उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्तव्य पर बने रहते।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

23 दिसम्बर 2008

सं० 7/एल 6-1019/08-3493—श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, भूगर्भ जल निदेशालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम - 227, 228, एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 03.09.08 से 26.10.08 तक कुल 54 (चौवन) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यदि श्री सिंह उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्तव्य पर बने रहते।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

5 जनवरी 2009

सं० 7/एल० 6-1014/08-3—श्री भारतेन्दु नाथ ठाकुर, सहायक अभियंता, गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल सं०-1, सूर्यगढ़ा, शिविर-मुंगेर को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के अन्तर्गत दिनांक 24.01.08 से 29.02.08 तक कुल 37 (सैतीस) दिनों का रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यदि श्री ठाकुर, उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्तव्य पर बने रहते।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

5 जनवरी 2009

सं०- 8/पी० 2-24/08-11—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०- 3244 दिनांक: 24.11.08 के द्वारा श्री आदित्य नारायण झा 'अनल', आर्ड०डी० संख्या-1953, गृह जिला- मुजफ्फरपुर को कार्यपालक अभियंता (चालु प्रभार) से सहायक अभियंता के पद पर पदावनत करने के साथ-साथ सहायक अभियंता के रूप में मुख्यालय में योगदान देने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री झा 'अनल' द्वारा मुख्यालय में अभी तक योगदान नहीं दिया गया है। इस संबंध में पूर्ण विचारोपरान्त श्री आदित्य नारायण झा 'अनल' की सेवा (सहायक अभियंता (असैनिक) के रूप) में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के परिक्षेत्राधीन देय कोटि में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

शुद्धि-पत्र

7 जनवरी 2009

सं० 7/विविध-12-1042/06-23—विभागीय अधिसूचना सं० 7/विविध-12-1042/06-2 दिनांक: 05.01.09 में अंकित दिनांक 01.04.07 से 27.05.07 तक कुल 54 (चौवन) दिनों के स्थान पर का दिनांक 01.04.07 से 27.05.07 तक कुल 57 (संतावन) दिनों का रूपांतरित अवकाश पढ़ा जाए।

2. अन्य तथ्य यथावत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

9 जनवरी 2009

सं० 8/पी3-030/08-74—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०-157 सह पठित ज्ञापांक 1035 दिनांक: 23.12.08 के आलोक में निलंबन से मुक्ति के पश्चात् जल संसाधन विभाग में योगदान कर पदस्थापन की प्रतीक्षारत सहायक अभियंता (असैनिक), श्री आलोक कुमार, गृह जिला-पूर्णिया, आई० डी० सं०-4512 की सेवा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के परिक्षेत्राधीन देय कोटि में पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

11 फरवरी 2009

एस० ओ० 5, दिनांक 18 फरवरी 2009, विभागीय अधिसूचना संख्या-9362, दिनांक 10.09.08 के द्वारा श्री राजेश वालिया, सेवा निवृत्त मुख्य न्यायधीश, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित कोसी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग के सचिव के पद पर प्रशासी पदवर्ग समिति के अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 10894, दिनांक 13.11.08 के द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भा० प्र० से० (सेवा निवृत्त) की गई नियुक्ति के आलोक में उनकी सेवा शर्त का निर्धारण 13.11.08 से निम्न प्रकार किया जाता है :-

1. सचिव को सेवा निवृत्ति के समय वेतनमान 18400-22400 में देया अंतिम वेतन एवं उस पर अनुमान्य नियमानुकूल भत्ते देय होंगे। कुल देय राशि में से उन्हें देय पेंशन की राशि घटाई जायगी।
2. उन्हें बिहार सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी के अनुमान्यता के अनुसार चिकित्सा भत्ता, दूरभाष, एल०टी०सी०, यात्रा भत्ता आदि देय होगी।
3. सचिव को यदि सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं होता है, तो वे नियमानुकूल मासिक किराया पर वाहन प्राप्त कर उपयोग करेंगे, जिसका भुगतान आयोग द्वारा किया जाएगा तथा नियमानुकूल ईंधन अनुमान्य होगा।
4. समाचार पत्रों/पत्रिकाओं पर मासिक व्यय अधिकतम 800/- (आठ सौ रुपये) का भुगतान आयोग द्वारा किया जाएगा।
5. मोबाईल की सुविधा-मोबाईल सेट खरीदने के लिए अधिकतम 8000/- (आठ हजार रुपये) तथा अधिकतम मासिक व्यय 1000/- (एक हजार रुपये) या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, आयोग द्वारा किया जाएगा।
6. घरेलु सहायता भत्ता के रूप में 3000/- (तीन हजार रुपये) प्रतिमाह का भुगतान आयोग द्वारा किया जाएगा।
7. अगले आदेश अथवा जाँच आयोग के विघटन पर जो भी पहले हो, उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
पी० एन० राय,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 48-571+10-डी०टी०पी०।

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सं० 1/ए०जी०वि०प०-01/07- 9349/कृ०,
कृषि विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001

द्वारा:- वित्त विभाग*

दिनांक-19 दिसम्बर, 2008

विषय:- राज्य के नवसृजित 13 (तेरह) जिलों में तेरह जिला कृषि पदाधिकारी एवं उनके कार्यालय के लिए आवश्यक 234 पद अर्थात् कुल 247 पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक राज्य के नव सृजित 13 (तेरह) जिलों यथा (1) बक्सर, (2) भभुआ (कैमूर), (3) जहानाबाद, (4) अरवल, (5) शिवहर, (6) मधेपुरा, (7) सुपौल, (8) अररिया, (9) किशनगंज, (10) बांका, (11) लखीसराय, (12) जमुई तथा (13) शेखपुरा में तेरह जिला कृषि पदाधिकारी तथा उनके कार्यालय के लिए आवश्यक 234 पद अर्थात् कुल 247 (दो सौ सैंतालीस) पदों की स्वीकृति गैर योजना मद में प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान
1	जिला कृषि पदाधिकारी	13	10,000-15,200
2	जिला योजना एवं मूल्यांकन पदाधिकारी	13	6500-10,500
3	सहायक कृषि पदाधिकारी (सामान्य)	13	5000-8000
4	सहायक कृषि पदाधिकारी (वनस्पति)	13	5000-8000
5	कृषि निरीक्षक (तेलहन)	13	5000-8000
6	कृषि निरीक्षक (क्षेत्र प्रयोग सेवा)	13	5000-8000
7	सांख्यिकी सहायक	13	5000-8000
8	प्रधान लिपिक	13	4000-6000
9	लेखापाल	13	4000-6000
10	आशुलिपिक	13	4000-6000
11	निम्नवर्गीय लिपिक	52	3050-4590
12	अनुसेवक	39	2550-3200
13	जीप चालक	13	3050-4590
14	रात्रि प्रहरी	13	2550-3200
कुल		247	

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.07 एवं वित्त विभाग, बिहार, के संकल्प संख्या 96 वि०(2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या 1/ए०जी०वि०प०-01/2007 में क्रमशः पृष्ठ संख्या 60-67/प० एवं 42/टि० पर दिनांक 10.06.2008 एवं 21.10.2008 को प्राप्त है।

3. उक्त पदों की स्वीकृति पर वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल 4,63,65,195/= रु० (चार करोड़ तिरसठ लाख पैंसठ हजार एक सौ पनचानवें) रु० का व्यय आंका गया है (पदवार व्यय विवरणी संलग्न) जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म 109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-0001-प्रमंडलीय जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना विपत्र कोड N 2401001090001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-2009 में गैर योजना में उप बंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. बिहार कोषागार संहिता भाग-2 अनुसूची-7 के अन्तर्गत अनुसूची-II के अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रहेंगे।

6. बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 157 के अन्तर्गत अनुसूची-III के अनुसार कृषि निदेशक, बिहार, पटना/सम्बन्धित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक इनके नियंत्री पदाधिकारी रहेंगे।

7. राज्यादेश प्रारूप में वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या 1/ए०जी० वि०प०-01/2007 के पृष्ठ संख्या 45/टि० पर दिनांक 17.12.08 को प्राप्त है। वित्त विभाग का डायरी संख्या 4227/AFC(E) दिनांक 28.11.08 है।

8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में कृषि निदेशक, बिहार, पटना के पदनाम से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक:- स्वीकृत पदों की विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
रामबृक्ष ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

पदवार व्यय विवरणी

मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-0001-प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना विपत्र कोड N 2401001090001											
जिला स्थापना हेतु											
क्र० सं०	कोटि 5 वगै 1,2,3 एवं 4	पदनाम	2007-08 पदों की सं० कुल पद	वेतनमान	मूल वेतन (वार्षिक वेतनवृद्धि सहित)	50 प्रतिशत महंगाई वेतन	50 प्रतिशत महंगाई भत्ता	शिक्षा भत्ता	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	मकान भाड़ा भत्ता	वर्ष में कुल उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		जिला कृषि पदाधिकारी	13	10000 - 15200	2371200	1185600	1778400	15600	28080	533520	5912400
2		जिला योजन एवं मूल्यांकन पदाधिकारी	13	6500-10500	1326000	663000	994500	15600	28080	298350	3325530
3		सहायक कृषि पदाधिकारी (सामान्य)	13	5000-8000	1248000	624000	936000	15600	28080	280800	3132480
4		सहायक कृषि पदाधिकारी (वनस्पति)	13	5000-8000	1248000	624000	936000	15600	28080	280800	3132480
5		कृषि निरीक्षक (तेलहन)	13	5000-8000	1248000	624000	936000	15600	28080	280800	3132480
6		कृषि निरीक्षक (क्षेत्र प्रयोग सेवा)	13	5000-8000	1248000	624000	936000	15600	28080	280800	3132480
7		सांख्यिकी सहायक	13	5000-8000	1248000	624000	936000	15600	28080	280800	3132480
8		प्रधान लिपिक	13	4000-6000	936000	468000	702000	15600	28080	210600	2360280
9		लेखापाल	13	4000-6000	858000	429000	643500	15600	28080	193050	2167230
10		आशुलिपिक	13	4000-6000	858000	429000	643500	15600	28080	193050	2167230
11		निम्नवर्गीय लिपिक	52	3050-4590	3432000	1716000	2574000	62400	112320	772200	8668920
12		अनुसेवक	39	2550-3200	1497600	748800	1123200	46800	84240	336960	3837600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13		जीप चालक	13	3050-4590	624000	312000	468000	15600	28080	140400	1588080
14		रात्रि प्रहरी	13	2550-3200	230900	115450	173175	15600	28080	112320	675525
कुल योग			247		18373700	9186850	13780275	296400	533520	4194450	46365195

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
रामवृक्ष ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

जल संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र

19 दिसम्बर 2008

सं० 7/एल-6-1006/2008-3447—विभागीय अधिसूचना संख्या 7/एल 6-1006/2008-315, 3 दिनांक 11.11.08 के कंडिका 1 में उपार्जित अवकाश की तिथि “04.11.08 से 31.01.08” के स्थान पर “04.11.07 से 31.01.08” पढ़ा जाय।

2. शेष तथ्य यथावत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

शुद्धि-पत्र

2 फरवरी 2009

सं० 8/पी 3-041/2007-214—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 4400 दिनांक: 17.06.08 के क्रमांक 117 के सम्मुख स्तंभ 2 में अंकित मो० सैयद अहमद के स्थान पर मो० सईद अहमद पढ़ा जाये।

2. शेष यथावत् रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

31 दिसम्बर 2008

सं० 7/विविध-12-1059/2008-3527—श्री बिनय प्रसाद सिन्हा, सहायक अभियंता(असैनिक), आई०डी० कोड- 2190, सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक अंचल, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन दिनांक 28.07.2008 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-74 के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
श्रीकृष्ण श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव।

5 जनवरी 2009

सं0 7/विविध-12-1042/06-2—श्री अनिल कुमार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, सहायक अभियंता, योजना एवं रूपांकण प्रमंडल सं0-3, रतवारा (मुजफ्फरपुर) को बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.07 से 27.05.07 तक कुल 54 (चौवन) दिनों का रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यदि श्री कुमार, उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्तव्य पर बने रहते।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार सिंह,

सरकार के अवर सचिव(प्रबंधन)।

मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन-विभाग, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय-आदेश

15 दिसम्बर 2008

सं०स्था०-3, बी-19/2007-1829—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1661, दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० राजेन्द्र राय, भूतपूर्व कोष रक्षक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, समस्तीपुर के आश्रित पुत्र श्री राजकेश्वर राय को नलकूप प्रमण्डल, बेगुसराय के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 3050-75-4050-80-4590 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबोधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

- 2 श्री राजकेश्वर राय पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० राजेन्द्र राय के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, बेगुसराय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेंगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
- 3 शैक्षणिक योग्यता **प्रमाण-पत्र/जिला** अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।
- 4 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक-5.10.91 की कंडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।
- 5 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक-5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री राजकेश्वर राय को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री राजकेश्वर राय की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।
- 6 गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- 7 तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- 8 यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।
- 9 इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाइपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी।

- 10 योगदान करने हेतु श्री राजकेश्वर राय को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
- 11 वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

विश्वनाथ चौधरी,
मुख्य अभियंता (उत्तर)।

22 जनवरी 2009

सं० 72—सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1661 दिनांक 2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व० नारायण लाल दास, पूर्व नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, मधुबनी के आश्रित पुत्र-श्री अशोक कुमार कर्ण को नलकूप प्रमण्डल, मधुबनी के अन्तर्गत दफ्तरी के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2610-60-3150-65-3540 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबोधक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

- 2 श्री अशोक कुमार कर्ण पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन-देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व० नारायण लाल दास के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, मधुबनी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेंगे तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
- 3 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।
- 4 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक-5.10.91 की कडिका-1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली जायेगी।
- 5 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293, दिनांक-5.10.91 की कडिका-7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री अशोक कुमार कर्ण को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता श्री अशोक कुमार कर्ण की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।
- 6 गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- 7 तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- 8 यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।
- 9 इन्हे छः माह के अन्दर दफ्तरी के कार्य में निश्चित रूप से परांगत होना होगा।
- 10 योगदान करने हेतु श्री अशोक कुमार कर्ण को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
- 11 वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

विश्वनाथ चौधरी,
मुख्य अभियंता (उत्तर)।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

30 जुलाई 2008

सं०प०उ०सं०स०-10/2007-1157वि०स०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-321, दिनांक-30.04.2008 के क्रम में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, सं०वि०स०, क्षेत्र संख्या-184, बाढ़ को “आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति” के बदले वर्ष 2008-09 के लिए गठित पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य मनोनीत किया है।

अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से माननीय सदस्य, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, सं०वि०स० आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 48-571+30-डी0टी0पी0।

बिहार गजट का पुरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

30 दिसम्बर 2008

सं० स0क0नि0 20-31/07स0क0-4781—विभागीय संकल्प ज्ञाप संख्या 3081, दिनांक 11.5.06 द्वारा श्रीमती जयमाला कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी सम्प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बसन्तपुर, सिवान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती जयमाला कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप श्रीमती जयमाला कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

मृत्युंजय गुप्ता,

सरकार के उप सचिव।

सं० स0 विधि-80-09/07-24

समाज कल्याण विभाग

संकल्प

5 जनवरी 2009

श्री अवधेश प्रसाद शर्मा तत्कालीन सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मधुबनी के विरुद्ध लगाये गये कतिपय आरोपों के लिए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय ज्ञाप संख्या 1449, दिनांक 02.06.2000 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के संकल्प संख्या 104, दिनांक 26.03.01 द्वारा श्री शर्मा को वृहत दण्डो सहित निलम्बन से मुक्त किया गया था। उक्त दण्डो के विरुद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू जे0 सी0 सं0-6011/2001/दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त मामले में दिनांक 04.09.08 को पारित

आदेश में श्री शर्मा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप दिये गये दण्डों को निरस्त करते हुए जॉच प्रतिवेदन के आधार पर पुनः निर्णय लिए जाने का आदेश पारित किया गया।

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिका में पारित न्याय निर्देश के आलोक में मामले की विस्तृत समीक्षा की गयी। श्री शर्मा के विरुद्ध लगाये गये 11 आरोप साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं पाया गया केवल आरोप संख्या-3 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है। उक्त परिस्थिति में मामले पर समयक विचारोपरांत श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के संकल्प संख्या 104, दिनांक 26.03.2001 द्वारा निर्गत आदेश को निरस्त करते हुए श्री शर्मा को दिनांक 26.03.01 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। आरोप संख्या-3 आंशिक रूप से प्रमाणित होने के कारण श्री शर्मा को निन्दन की सजा दी जाती है, जो उनके स्थायी चरित्र पुस्ति में अंकित किया जायेगा।

आदेश :-आदेश दिया जाता है, कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाए और इसकी मुद्रित प्रतियाँ समाज कल्याण विभाग, पटना को उपलब्ध करायी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

मृत्युंजय गुप्ता,

सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट का पूरक (अ0), 48-571+10-डी0टी0पी0।